



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941–सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941–September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 11, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9721 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Kuchera has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kuchera. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल कुचेरा (नागौर)
प्रफोर्मा (क)

क्र.सं.	वार्ड सं.	वार्ड के सीमांकन का विवरण
1	1	रामचन्द्र डुकिया मास्टर के मकान से ओमप्रकाश डुकिया रूपाथल मठ मार्ग बलदेवराम जी मिर्धा की छतरी को शामिल करते हुए मठ रोड रोड सतुमहाराज के मकान की साईड को शामिल करते हुए हड्मान कड़वासरा की ढाणी लेते हुए मठ धाम से पुनाराम सियाग को लेते हुए कांकड़ माठ माठ रूपाथल मार्ग को क्रॉस कर कांगड़ माठ माठ बोड़वा मार्ग को क्रॉस कर कांकड़ माठ माठ खेड़ा जुंजाला होते हुए समस्त कुचेरा कांकड़ माठ में स्थित ढाणियां सम्मिलित करते हुए मूण्डवा रोड क्रॉस कर फिराजपुरा कांकड़ माठ से कुचेरा कांकड़ माठ की कुआ ढाणियां को लेते हुए फिरोजपुरा रास्ते की बायी तरफ नया बिजलीघर की साईड को लेते हुए भेरुंजी चैराहा क्रास कर लूणसरा रोड पर जेठमल बाघमार की बाड़ी की साईड की समस्त बस्ती को शामिल करते हुए रामबक्ष मेघवाल के मकान से कॉपरेटिव गोदाम से दयालराम डुकिया के मकान से

		रामचन्द्र दुकिया के मकान तक।
2	2	भैरूजी के मंदिर सें होते हुए अजमेर रोड़ की दायिनी तरफ बावरी बस्ती को सम्मिलित करते हुए मारुका बस्ती को शामिल करते हुए बासनी रास्ते के दायें भाग कायमखानी बस्ती को शामिल करते हुए कुआ ढाणियों का शामिल करते हुए कांकड़ माठ से बासनी मार्ग होते हुए फिरोजपुरा के रास्ते रास्ते बायीं बस्ती को लेते हुए भैरूजी मंदिर तक।
3	3	बासनी मार्ग पर उम्मेदखां कायमखानी के मकान से पुराना बिजलीघर से कायमखानी मोहल्ला को शामिल करते हुए रामसर तालाब के पास धर्मकांटा शिवदेवराम मिर्धा की दुकानों को लेते हुए करंट बालाजी मंदिर होते हुए खजवाना रोड को शामिल लेते हुए खेल मैदान को छोड़ते हुए केरिया मार्ग के दायीं बस्ती को शामिल करते हुए बाईपास क्रॉस कर कांकड़ माठ माठ खजवाना रोड क्रॉस करते हुए कांकड़ माठ माठ बासनी मार्ग के दायें भाग में स्थित रामगोपाल टाक के कुआ से पुनाराम मारुका के कुआ की साईड के सभी कुआ ढाणीयां लेते हुए बासनी रास्ते रास्ते उम्मेदखां के मकान तक।
4	4	पशु चिकित्सालय से खैल मैदान को शामिल करते हुए देवीसिंह राजपूत के कुआ के शामिल करते हुए तेली नाडा मार्ग को दोनों साईड शामिल करते हुए बाईपास रोड़ क्रॉस कर केरिया मार्ग रास्ते रास्ते बायीं तरफ के कुआ ढाणीयां लेते हुए कांकड़ माठ-माठ निम्बड़ी रोड़ की बांयी साईड की कुआ ढाणियों को शामिल करते हुए रास्ते रास्ते जी.एस.एस. को लेते हुए किसान छात्रावास से पशु चिकित्सालय तक।
5	5	132 केवी सब स्टेशन सें शिव नगर कालोनी निम्बड़ी रोड की बांयी तरफ की बस्ती को सम्मिलित करते हुए निम्बड़ी रोड रोड हरदीन राम जी मण्डा के कुआ व ढाणियों को सम्मिलित करते हुए कांकड़ माठ संसारा नाडा को शामिल करते हुए हीराजी माली के कुए सें उतर की ओर मुड़ते हुए गौशाला सें पुर्व की रोड पर चलते हुए राजकीय प्राथमिक स्कुल को छोड़ते हुए खेतसिंह की ट्युबवेल भागीरथ खाती का कुआ व इस तरफ की समस्त कुआ ढाणियां को लेते हुए पुखराज टाक के मकान से पटवार घर को लेते हुए अजमेर रोड़ रोड़ वाटर ब्रक्स को लेते हुए 132 केवी तक।
6	6	पुलिस थाना को शामिल करते हुए कानाराम हरिजन का मकान राजीव मिर्धा का कुआ ढाणियां सम्मिलित करते हुए संसारा नाडा से उपर शंकर सांखला के कुअ व राजपुतो का कुआ ढाणियां शामिल लेते हुए कांकड़ माठ अजमेर रोड़ क्रॉस कर अमरराम माली की ढाणी व कांकड़ माठ सें हेमण्डा नाडा मांगीलाल

		खाती के कुआ को छोड़ते हुए मार्ग मार्ग बांयी तरफ की कुआ ढाणियां व कच्छावा ढाणियाँ को सम्मिलित करते हुए शंकर राईका के मकान को सम्मिलित करते हुए अजमेर रोड क्रॉस कर पुलिस थाना तक।
7	7	रामनिवास सोनी के मकान सें कृषी मंडी रोड की बायी साईड से सतार ठेकदार के मकान सें गफार सिलावट के मकान सें बिरदाराम तेली के मकान से बस्ती को सम्मिलित करते हुए भाटीपुरा मस्जिद साईड सें रास्ते रास्ते धनाराम हरिजन के मकान की साईड को लेते हुए कृपाराम मिर्धा की दुकान खुदाबक्स लुहार से रामनिवास के घर तक।
8	8	भाटीपुरा जीएलआर सें नेमाराम तेली का ढाबा वाया दीपु माली हसन तेली सिकन्दर के मकान सें होते हुए राईका बस्ती व्यापारी बस्ती छोटू व्यापारी राजु धोबी के साईड के मकान व असलम छींपा के मकान की साईड लेते हुए सिकन्दर व हनीफ तेली के मकान को शामिल करते हुए जीएलआर तक।
9	9	नगर पालिका कार्यालय जैनु खां के मकान सें सरवर खां के मकान सें कायमखानी बस्ती को लेते हुए लक्ष्मी पैट्रोल पम्प सें तुलसीराम के ढाबा को शामिल करते हुए अजमेर रोड राजकीय सीनियर मा. वि. को शामिल करते हुए मारवाड़ मिष्ठान भंडार से नाहर पैट्रोल पम्प से रोड़ रोड़ रणछोड़ आचार्य के मकान सें गिंवारिया बस्ती के रास्ते रास्ते कादर व्यापारी के मकान से होते हुए मुसा छींपा के प्लॉट से किशनपुरी के मकान को सम्मिलित कर बांयाजी के थान सें स्टेंशन रोड़ क्रॉस करते हुए गोगी देवी पार्क सें नेहरू पार्क आर्य समाज भवन को शामिल लेते हुए पुनः नगर पालिका तक।
10	10	डुकिया सदन से तुलसीराम की चक्की होते हुए कुंभटो की पोल से विमल भंडारी के मकान सें उत्तमचंद बाफना के मकान को बायी तरफ शामिल करते हुए फेन जी के मकान सें सत्यनारायण के मकान को लेते हुए मिलाप सेवग सें मंगलचंद सेवग के मकान से होते हुए धींसुलाल सेवग के मकान से रोड़ क्रॉस कर सेवगों की पंचायत को शामिल करते हुए अजमेर रोड़ रोड़ शंकरजी टाल की साईड सें मदरसा सें फुले खां कायमखानी की साईड सें माताजी मंदिर से व डाकघर सें मुरली वाँच कम्पनी को लेते हुए डुकिया सदन तक।
11	11	भैंसूजी चौराहा लुणसरा सडक सें दांयी तरफ खेमाराम मेघवाल के घर को होते हुए मेघवाल बस्ती की दोनो साईड के मकान व पाबुराम मास्टर के मकान को शामिल करते हए रामचन्द ढोली के मकान सें ढोलियों व बिसायतीयों की बस्ती को शामिल करते हुए जबरचंद बेताला के मकान होते हुए केवलचंद बाघमार के मकान को सम्मिलित करते हुए भंडारीयों का बास की दांयी तरफ

		की बस्ती को शामिल करते हुए हस्तीमल रूण वाले के मकान होते हुए जैन उपासरा दायी तरफ होते हुए लोढ़ों की बस्ती को शामिल कर सेवग बस्ती को दायी तरफ की बस्ती को शामिल करते हुए उगमा जी सेवग के मकान होते हुए कांकरिया भवन मुण्डवा रोड के दांये तरफ बावरी बस्ती को शामिल करते हुए रहमतुला बिसायती के मकान से खेमाराम मेघवाल के घर तक।
12	12	कुनाराम मारुका के मकान से मारुका बास की दोनों साईड लेते हुए लुणसरा रोड पर छोटुराम मारुका के मकान को शामिल करते हुए इस साईड की बस्ती हीरालाल कडवासरा की फेकट्री को लेते हुए समस्त राजावतों का बास, महिया बास भंवरु महिया के घर की साईड लेते हुए राजु महिया का मकान से रास्ता क्रॉस कर नथु महिया का मकान से जाटों की मंडी से सम्पत सोनी से अणदाराम कुम्हार के मकान को लेते हुए रामनारायण ब्राह्मण के मकान से समस्त डुकिया बास को शामिल करते हुए भागीरथ डुकिया के मकान से दांयी तरफ गरीबराम कुम्हार के मकान से हनीफ बिसायती की दुकान होते हुए बिसायती बस्ती राजपुतों का बास को शामिल करते हुए बाजार की दांयी तरफ नथु कुम्हार की दुकान से माताजी मंदिर से मांगीलाल चैरडिया के मकान से मोहनलाल जी चोरडिया की पोल को लेते हुए जैन छात्रावास से लुणकरण जी चौरडिया के मकान से जैन बोर्डिंग होते हुए भंवरलाल बाघमार के मकान को लेते हुए कुनाराम मारुका के मकान तक।
13	13	तेजाराम खाती के मकान से खाती बस्ती के दोनों भागों को सम्मिलित करते हुए बाबू सुनार के मकान होते हुए धोबी व तेलीयों की बस्ती को लेते हुए खेतमल सोनी की दुकान से बंशीवाला मंदिर की साईड की बस्ती को लेते हुए नेमीचन्द लखारा की दुकान होते हुए मुरली महाराज की दुकान को शामिल करते हुए पिनारो की बस्ती, गुलाब खाती का मकान, जगन्नाथ रोड की दांयी साईड स्थित भंवरलाल मास्टर के मकान, लाभचंद की पोल, नेमीचंद सिंधवी, मंगलचन्द सिंधवी के मकान होते हुए रास्ती क्रॉस करते हुए मूलचंद गौड़ के मकान के साईड की बस्ती लेते हुए फेनजी की दुकान से बाजार रोड रा.उ.प्रा.वि. की दांयी तरफ से शामिल करते हुए कोट गली को शामिल करते हुए रामेश्वर सोनी की दुकान को लेते हुए सुखराम माली की दुकान से तेजाराम खाती के मकान तक।
14	14	बड़ा बाजार इलमुदीन तेली के मकान से सुखराम मेघवाल सिंतरी मेघवाल के मकान की साईड बस्ती को लेते हुए अनवर व्यापारी से रास्ता क्रॉस कर रेगरों के मंदिर बस्ती लेते हुए ईशाक जी सिलावट के मकान हनुमान मंदिर से गार्ड

		साहब का मकान, रामकरण खटीक के मकान सें मुन्जा सरगरा के मकान होते हुए रास्ता क्रॉस कर जगदेवजी की पोल सें भोजराज मिर्धा के मकान को लेते हुए मिर्धा बास, निर्मल कुम्हार के मकान जोगीराम कुम्हार के मकान बालुजी कुम्हार के मकान सें सुनारों व दर्जियों की गली को लेते हुए भंवरलाल श्रीमाल की दुकान होते हुए तेलियों के मकानों चुन्जीलाल माली से इलमुदीन तेली के मकान तक।
15	15	सुरजभान मण्डा के मकान सें इमरतिया कुआ होते हुए बागड़ा को लेते हुए कोटोलाव तालाब को शामिल कर तोफिक बिसायती के मकान सें सदरुदीन व्योपारी के मकान की साईड को लेते हुए झुमर खोखर के मकान को लेते हुए रास्ते-रास्ते रामनारायण खाती के मकान के लेते हुए मिसाराम हरिजन की साईड को लेते हुए कानाराम माली के मकान सें मदरसा की साईड को लेते हुए रोड क्रॉस कर कमला देवी सिंघवी की कॉलेज को शामिल लेते हुए पप्पुराम माली के मकान की साईड को लेते हुए गिरधारी घांची के मकान को लेते हुए पुखराज मेडीकल से मदनलाल कम्पाउण्डर का मकान लेते हुए जगन्नाथ रोड दायी तरफ बस्ती को लेते हुए हडमान तेली के मकान की साईड को लेते हुए उत्तमचन्द श्रीमाल के मकान से रोड क्रॉस कर नरपत सिंघवी के मकान को लेते हुए अर्जुनपुरी की पोल को शामिल करते हुए रामबल्लभ सोनी के मकान की साईड को लेते हुए उपासरा से घेरजी की पोल से लिखमीचंद श्रीमाल के मकान से महेश मेडीकल से निम्बड़ी हाउस से स्टेट बैंक को सम्मिलित करते हुए सुरजभान मण्डा के मकान तक।
16	16	नथुराम टाक के मकान सें मदरसा के सामने की बस्ती को करीम छींपा के मकान शामिल करते हुए वाटर ब्रक्स की टंकी सें सुखराम मास्टर, कालु तेली साँई तेली के मकान की साईड की बस्ती, सब्जी मंडी होते हुए कमाल जी छींपा की दुकान व भार्गव बस्ती जीयाजी माली मकान की साईड की बस्ती लेते हुए लिखमाराम माली के मकान सें व्यापारी बस्ती होते हुए मदनजी मेम्बर के कुए सें नाथुराम टाक के मकान तक।
17	17	गिरधारी माली के मकान सें हरिजन बस्ती रेगर बस्ती रेगरो का कुंड से सांवताराम रेगर का मकान शामिल करते हुए मदनजी कुए को छोड़ते हुए गिरधारी माली के मकान तक।
18	18	रामदेवजी मंदिर सें नाथ जी के धुणा सें होते हुए सांसी बस्ती शामिल लेते हुए गफुर जी तेली के मकान सें जयराम माली के मकान सें मांगीलाल खाती की ट्युबवैल से सिंधलास मार्ग राजपुतों की समस्त ढाणियां व कांकड़ माठ-माठ

		होते हुए सिंधलास मार्ग-मार्ग से नाथ जी धुंणा तक।
19	19	हीराराम माली के मकान सें दांये भाग की बस्ती को शामिल करते हुए कृषी मंडी रोड के दांये भाग को शामिल कर इंदिरा कॉलोनी आकेली मार्ग का दायां भाग वन विभाग शामिल कर कांकड़ माठ आकेली व सिंधलास की कांकड़ माठ होते हुए समस्त कुआ ढाणी को शामिल करते हुए सिंधलास मार्ग के दाये भाग को लेते हुए मारुण्डिया स्कुल होते हुए हीराराम माली के मकान तक।
20	20	मालीयों का बास भरमंडी बड़ला दांयी बस्ती को लेते हुए माणक महाराज के मकान की साईड की बस्ती भावला मार्ग का दांया भाग की कुआ ढाणिया रामपाल मुण्डेल की ढाणी डेलोलाव तालाब की कुआ ढाणियों को शामिल कर लुणसरा कांकड़ माठ आकेली कांकड़ माठ आकेली मार्ग दांये भाग में स्थित कुआ ढाणी जयराम मास्टर कुए ढाणी को शामिल कर टीकम गहलोत ब्राह्मणों के कुए को लेते हुए कृषी मंडी को शामिल करते हुए सतार व्यापारी के मकान सें एवं भूरानाथ के मकान की साईड होते हुए गौशाला को लेते हुए भरमंडी भड़ला तक।
21	21	शनि मंदिर से राईका बस्ती रामदेवरा होते हुए छोटा मठ व्यापारियों का मोहल्ला खटीकों की बस्ती सें बिसायती बस्ती सें हकीम सिलावट के मकान की साईड से मुसा छींपा के मकान सें चांदजी दर्जी के मकान सें भार्गव बस्ती व्यापारियों की नयी पोल की साईड को लेते हुए शनि मंदिर तक।
22	22	मीसुजी लखारा की दुकान सें पुखराज दाधिच के मकान की साईड लेते हुए गणेश साद के मकान सें तेलियों का फलसा हनुमान सोनी के दुकान की साईड से समस्त, ब्राह्मणों का फलसा बस्ती को लेते हुए शंकर खाती की दुकान सें रिखबचन्द की दुकान की साईड सें रामदेवजी के मंदिर व मेघवाल बस्ती को शामिल करते हुए नृसिंह मेघवाल के मकान दुलाराम रेगर से मांगीलाल रेगर के मकान से होते हुए बाबु छींपा के मकान सें रास्ता क्रॉस कर छींपा बस्ती के बांये भाग से शुरू होकर आचार्य बस्ती व भार्गव बस्ती के दांये भाग को सम्मिलित करते हुए फरीद छींपा के मकान सें उस्मान छींपा के मकान सें छींपों की मस्जिद को शामिल करते हुए मिसुजी लखारा की दुकान तक।
23	23	होली निम्बड़ा से बायी बस्ती, भुराराम फौजी के मकान सें श्री रिषपाल सिंह मिर्धा के मकान गंवाई कुआ को लेते हुए सवाईसिंह मिर्धा का मकान बड़ा मठ सुरज रोड बांया भाग की बस्ती शैतानराम मेम्बर के मकान सें मालियों का बास गिरधारी मास्टर के मकान सें नथु व्यापारी का मकान की साईड से कानाराम माली के कुए सें कृषी मंडी रोड से लुणसरा रोड-रोड होते हुए संग्राम

		कुम्हार के मकान की साईंड राधेश्याम गौड़ के मकान को लेते हुए प्रहलादराम प्रजापत के मकान से होली निम्बडा तक।
24	24	भूराम फौजी के बाड़े से लुणसरा रोड़-रोड़ रामप्रकाश डुकिया के मकान की साईंड से रोड़ क्रॉस करते हुए कृषी मंडी रोड़ गैना बाई के कुएँ की साईंड को शामिल लेते हुए भावला मार्ग बांयी तरफ की कुआ ढाणी, कानाराम मारुका ढाणी कांकड़ माठ लुणसरा होते हुए लुणसरा रोड़ क्रॉस कर रूपाथल कांकड़ माठ कसनाऊ सड़क के बांयी तरफ स्थित कुआ ढाणी नैनाराम मिर्धा हजारीराम नरादणिया के कुएँ को शामिल करते हुए रोड़-रोड़ रामपाल डुकिया के कुएँ से भुराम फौजी के बाड़े तक।
25	25	हरदीन कुम्हार के मकान से महेन्द्र चौधरी के मकान से लुणसरा रोड़ को क्रॉस कर सीताराम रिणवा के मकान को लेते हुए कसनाऊ रोड़ के बायें भाग की कुआ ढाणियां, रिछपालसिंह मिर्धा का कुआ, पुरखाराम मिर्धा का कुआ लेते हुए कांकड़ माठ-माठ रूपाथल मठ रोड़ के बाये भाग को शामिल करते हुए सुखराम कड़वासरा की ढाणी कुआ, पासूजी रिणवा की साईंड साईंड लेते हुए जगराम दरोगा का कुआ, उगमाराम डुकिया का कुआ को लेते हुए नथूजी मास्टर के घर से लुणसरा रोड़ क्रॉस कर जेताराम कुम्हार के मकान से पुखराज गौड़ के मकान होते हुए, हरीराम महिया के मकान से भूरजी महिया के मकान होते हुए मुण्डेलो के बास को शामिल करते हुए भायाराम ब्राह्मण के मकान से ठाकुरजी का मंदिर खंडेलवालों के बास को शामिल करते हुए घनश्याम मिर्धा की पोल से रास्ता क्रॉस कर हरदीनराम कुम्हार के मकान तक।

अधिशाषी अधिकारी

नगरपालिका कुचेरा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।